

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office : 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No. : +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

Date: 08.08.2019

The Secretary,
Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI)
(Formerly known as MCX Stock Exchange Ltd.)
4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62
Opposite Trident Hotel, Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400098

Sub:- Submission of Newspaper publication for the notice of board meeting to be held on 10/08/2019.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of newspaper notices informing about the meeting of Board of Directors of the Company to be held on Saturday, 10th August, 2019 published in the following newspapers on 02nd August, 2019:

1. Financial Express
2. Jansatta

Kindly acknowledge the receipt of the same.

For SKYLINE INDIA LIMITED


RAJEEV GUPTA

Director

DIN: 00482252



"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 10th, 2019 at 11:00 A.M. inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended as on June 30th, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.skylineindia.co.in> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <https://www.mseil.in> Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public on August 10th, 2019.

For Skyline India Limited

Place: Delhi
Date: 31.07.2019

(Dinesh Kumar Shindi)
Company Secretary & Compliance Officer

ACKS LIMITED

Makrand House, Palda, Indore 452 020 (M.P.), India
 on.d.in, Website: www.yellowdiamond.in
 15311MP2009PLC021746

ICE

NOT Regulation 47 of the SECD (Listing Obligations
Regulations, 2015), we write to inform you that a
Securities company will be held on Friday, 9th August,
Obliged to provide unaudited standalone and consolidated
Regulatory information after ended 30th June, 2019.

meet
Com
exchange website www.nseindia.com and

For Prataap Snack Limited

Om Prakash Pandey

Om Prakash Pandey
Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE is hereby given that the Securities and Exchange Commission (SEC) has issued an order requiring the Directors of the company to file with the SEC, inter-alia, to conduct an investigation of the quarter and the company's financial statements. The said Notice is available at www.bharatgovernments.com website at <http://www.bharatgovernments.com>. Further, the Trade and Finance Commission of India to August 16, 2002. Conduct of the () by insiders from

New Delhi,
August 1, 2019

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LIM

Regd. Office: Patiala Road, Nabha - 147 201 (Punjab).
Head Office: 24th Floor, One Horizon Center, DLF Phase 5,
Golf Course Road, Gurugram - 122 002, Haryana.
Tel. No. 01765-306400; Fax No. 01765-220642

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2007

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended March 31, 2019		3 Months Ended 30.06.2019	3 Months Ended 31.03.2019
PARTICULARS			
(Refer Notes Below)	Unaudited	Audited	(Refer Notes Below)
1 Total Income	13,20,90	14,00,00	
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	3,85,66	4,20,00	
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,85,66	4,20,00	
4 Net Profit / (Loss) for the period (after tax and after Exceptional items)	2,48,08	2,80,00	
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,49,84	2,80,00	
6 Equity Share Capital	42,06	42,06	
7 Reserves & Surplus	N.A.	N.A.	
8 Net Worth	N.A.	N.A.	
9 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
(i) Basic :	58.98	58.98	
(ii) Diluted :	58.98	58.98	

NOTES:

- [illegible]

Place : Gurugram
Date : August 01, 2019

lah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Fax : 91-11-
avgram, PO, Tyre Factory, Kankrelli, 343 242



वर्गित पते पर 17 अगस्त, 2019 के 1700 बजे या उससे पूर्व मुहरबंद लिफाफे में ईओआई जमा कर सकते हैं। लिफाफे/ ईमेल में "कालीबेर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिये ईओआई" शीर्षकित किया जाना चाहिए।

हस्ता./-
मोहन लाल जैन
रिजल्यूशन प्रफिशनल

कालीबेर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं. IBBI/PA-002/IR-N00006/2016-17/10006
आईबीबीआईआई में पंजी. पता: एफ-2/28, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110089

तिथि: 2.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

सदभ म आधानयम का धारा 13 का उप धारा (8) क प्रावधाना क प्रात आकृष्ट का जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भू तल टाउन हाउस नं. यू-18/ 28, डीएलएफ फेज-III, गुडगांव ग्राम नाथपुर, तहसील एवं जिला गुडगांव, हरियाणा- 122001 में स्थित हनुमन्त सिंह के स्वामित्व में सम्पत्ति का इक्विटबल मार्गेंज।

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

स्थान: गुडगांव
तिथि: 02.08.2019

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 10th, 2019 at 11:00 A.M. inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended as on June 30th, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.skylineindia.co.in> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <https://www.mseil.in> Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public on August 10th, 2019.

For Skyline India Limited
Sd/-

Place: Delhi
Date: 31.07.2019
(Dinesh Kumar Shindi)
Company Secretary & Compliance Officer

AMIN TANNERY LIMITED

CIN No. U19115UP2013PLC055834
Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P.)
Ph. No.: +91 512 2304077.
Email: share@aminatannery.in, Web: www.aminatannery.in

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 5:00 PM, on Saturday, 10th August, 2019 at 187/170, Jajmau, Kanpur 208010 inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

For Amin Tannery Limited

Sd/-

Place:- Kanpur
Date:- 01.08.2019
Arti Tiwari
(Company Secretary)

SUPER TANNERY LIMITED

CIN No.: L19131UP1984PLC00621
Regd. Office: 187/170, Jajmau, Kanpur - 208 010 (U.P.)
Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792.
Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 4:00 PM, on Saturday, 10th August, 2019 at its registered office inter-alia, to consider and approve the Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

For Super Tannery Limited

Sd/-

Place:- Kanpur
Date:- 01.08.2019
R.K. Awasthi
(Company Secretary)



बैंक ऑफ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)

आरओएसएआरबी, 1ला तल, सरगुवा कॉम्प्लेक्स, नेहरू नगर, पार्लियमन, पटना-13, मोबाईल नं. 7070176399
ईमेल: sarpth@bankofbaroda.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सम्पत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में प्रतिभूत है जिसका सफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडिटर ने कब्जा कर लिया है, जो बैंक के बकाए की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है" तथा जो भी वहाँ है आधार पर 27.8.2019 को ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। यदि वे उक्त नीलामी की तिथि तक अपनी संपूर्ण बकाया देयता का भुगतान नहीं करते हैं तो उक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में नीचे वर्णित ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टियों के लिए यह सूचना है।

ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 26.8.2019 के 5.00 बजे अप.
ई-नीलामी 27.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक 5 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी।

ऋणधारक, गारन्टर एवं बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना तिथि कब्जा की तिथि कुल बकाया	सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति का आश्रित मूल्य
			सम्पत्ति का ईएमडी बोली वृद्धि राशि
मै. मा महाराणी राइस मिल पार्टनर	01.6.2018	श्री अरविन्द कुमार सिंह के नाम में पंजीकृत दस्तावेज सं. 1801, तिथि 26.03.2016, माप 3420 वर्ग मी. की भूमि जो खेता नं.137, खसरा नं. 320, ग्राम ईलाहाबाद, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर- पूर्व- मैन रोड, दक्षिण-पूर्व- अन्य सम्पत्ति, उत्तर-पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण-पश्चिम: अन्य सम्पत्ति	आईएनआर 39780000.00
1) श्री उमा शंकर सिंह 2) श्री अविनाश सिंह 3) श्री अरविन्द कुमार सिंह 4) श्री राधे शर्मा 5) श्रीमती रश्मिणी देवी 6) श्री कृष्ण कुमार	14.3.2019		आईएनआर 39780000.00
बैंक शाखा: eVijayaBank कदमकुआं शाखा- पटना	आईएनआर 6,11,87,183.00 + व्याज + अन्य चार्जेज		आईएनआर 100000.00

नियम एवं शर्तें:
इच्छुक बोलीदाताओं को मै. ई-प्रोक्वोमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड Auction Tiger, सम्पर्क व्यक्ति अली जौहर, मो.: 6352490780, सपोर्ट नं.: 9374519754, मेल: Bihar@auctiontiger.net से यूजर आईडी/पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। ई-नीलामी बिक्री वेबसाइट <https://bob.auctiontiger.net> के माध्यम से ऑनलाइन होगी। ई-नीलामी में भाग लेने से लिए बोलीदाता हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का धारक होना चाहिए, ईएमडी का भुगतान खाता नं. 60310015181219, आईएफएससी: BARB0SARPTN (पांचवें कैरेक्टर शून्य है) में आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। सफल बोली को उसी दिन 25% बोली राशि (ईएमडी राशि सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष भुगतान 15 दिनों में किया जाएगा अन्यथा ईएमडी जफ्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगित/निलम्बित करने का अधिकार है। नियमों एवं शर्तों के विस्तृत विवरणों के लिये कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm> देखें सम्पर्क व्यक्ति श्री पंकज कुमार, प्राधिकृत अधिकारी, आरओएसएआरबी, पटना, मो.: 7070176399

तिथि: 26.07.2019
स्थान: पटना
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

आधार प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U45200DL2013PTC258204

पंजीकृत कार्यालय: एच.नं. एन- 109, दूसरा तल, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, दिल्ली-110025

ई-मेल आईडी: vk@aadhargroup.in

प्रचुर सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

आधार प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: एच.नं. एन- 109, दूसरा तल, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, दिल्ली-110025 में है, के मामले में - आवेदक एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 01 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एससीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 बिल्डिंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पता: एच.नं. एन- 109, दूसरा तल, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, दिल्ली-110025

कृते एवं के लिये

आधार प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

विपिन कुमार

(निदेशक)

DIN: 06655748

तिथि: 2.8.2019
स्थान: दिल्ली

नई दिल्ली